



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 आश्विन 1938 (श०)  
(सं० पटना 845) पटना, शुक्रवार, 7 अक्टूबर 2016

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद

अधिसूचना

10 मई 2016

सं० 384—श्री रामजानकी मंदिर, ग्राम—भड़भड़वा, पो०—मुरली परसौनी, थाना—पुरुषोत्तमपुर, जिला—पश्चिम चम्पारण पर्वद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—4407 है।

इस न्यास के सम्यक संचालन हेतु न्यास समिति गठन के लिए पर्वदीय पत्रांक—2533 दिनांक 31.10.2015 द्वारा अंचलाधिकारी मैनाटाड़ से सदस्यों का नाम भेजने का अनुरोध किया गया। उन्होंने अपने पत्र पत्रांक—80 दिनांक 10.03.16 द्वारा न्यास समिति के गठन हेतु ग्यारह सदस्यों का नाम भेजा है।

उपर्युक्त परिस्थिति में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था, सम्यक् संचालन एवं विकास हेतु एक योजना का निरूपण एवं उसके संचालन हेतु न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः उपर्युक्त परिस्थिति में मैं, संजय कुमार, प्रशासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 81 (ख) सह पठित धारा 8 (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यास के जीर्णोद्धार, सम्यक विकास एवं सुसंचालन के लिए अधिनियम की धारा 32 के तहत निम्नलिखित योजना का निरूपण करता हूँ।

#### योजना

1. अधिनियम की धारा—32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री रामजानकी मंदिर, भड़भड़वा न्यास योजना होगा” तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री रामजानकी मंदिर, भड़भड़वा न्यास समिति होगी” जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा—पाठ एवं साधु—सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय—व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप—विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय—व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्य वृत्त आदि सम्यक रूप से पर्वद को प्रेषित करेगी।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद् को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद् में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकूल कार्य पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता है।
11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।  
पर्षद् द्वारा निरूपित योजना को मूर्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :-

(1)	श्री राम यादव	—	अध्यक्ष
(2)	श्री सिकन्दर यादव	—	सदस्य
(3)	श्री भोला सिंह	—	सदस्य
(4)	श्री ध्रुव महतो	—	सदस्य
(5)	श्री अरविन्द पाण्डेय	—	सदस्य
(6)	श्री पलटन राय	—	सदस्य
(7)	श्री लवकुश साह	—	सदस्य
(8)	श्री योगी राम	—	सदस्य
(9)	श्री नथुनी ठाकुर	—	सदस्य
(10)	श्री लालबहादुर यादव	—	सदस्य
(11)	श्री बीरबहादुर यादव	—	सदस्य

सभी ग्राम-भड़भड़वा, पो0-मुरली परसौनी, थाना-पुरुषोत्तमपुर, जिला-पश्चिम चम्पारण। अध्यक्ष न्यास समिति की प्रथम बैठक आहूत कर सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन कर पर्षद् को सूचित करेंगे।

इस समिति का गठन तात्कालिक प्रभाव से किया जाता है और इसका कार्यकाल 05 (पाँच) वर्षों का होगा।

आदेश से,  
संजय कुमार,  
प्रशासक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 845-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>